

# WITHDRAWAL APPLICATION FORM

आधार नम्बर..... अपक्रम प्रार्थना पत्र

1. Date of Application प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	
2. Name & Full address of parent or guardian of scholar applying & relationship to scholar छात्र/छात्रा के पिता अथवा संरक्षक का नाम व पूरा पता और छात्र से सम्बन्ध	
3. Name of Scholar छात्र/छात्रा का नाम	
4. Class & Section कक्षा तथा वर्ग	
5. His father's name & Occupation उसके पिता का नाम और व्यवसाय	
6. His father's residence (with Post Office District & State) उसके पिता का निवास स्थान (डाकखाना, प्रान्त और राज्य सहित)	
7. Caste of Hindu, otherwise religion जाति हिन्दू अथवा धर्म	
8. Cause of withdrawal from the institution विद्यालय छोड़ने का कारण	
9. Class & Section year & month of the leaving the institution. विद्यालय छोड़ने की कक्षा व वर्ग तथा वर्ष व मास	

I hereby certify the above statement is correct.  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर लिखा हुआ विवरण ठीक है।

Signature of the student  
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

Signature of Parent of Guardian  
पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर

Note: If A duplicate copy of the Scholar's Register and Transfer Certificate is applied for the following certificate must by signed by the parent or guardian.

नोट: यदि छात्र/छात्रा द्वारा रजिस्टर तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रति दोबारा प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है तो निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पर पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर होना चाहिए।

I hereby certify that .....  
did not attend any other institution from the date he left this institution.  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि .....  
ने इस विद्यालय को छोड़ने के पश्चात किसी अन्य विद्यालय में शिक्षा नहीं पाई।

Signature of Parent of Guardian  
पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर

Note: When the Parent or Guardian has more than one address, the local address should be given.  
नोट: जबकि पिता अथवा संरक्षक के एक से अधिक पते हों तो स्थानीय वर्तमान पता लिखना चाहिए।

1. The teachers concerned are required to certify whether there are any outstanding claims against the scholars.

Date.....20

Head of Institution

2. Certified that all books lent to the scholar have been duly returned to the library by the scholar or a sum or Rupees .....is to be realized from the scholar.

Date.....20

Librarian

3. Certified that all games material lent to the scholar has been duly returned by the Scholar or a sum of Rs.....is to be realised from the scholar.

Date.....20

Games Superintendent

4. Certified that all science material lent to the scholar has been duly returned by the scholar or a sum of Rs.....is to be realized from the scholar.

Date.....20

Science Teacher

5. Certified that there are no outstanding claims against the scholar or a sum of Rupees .....is to be realized from the scholar.

Date.....20

Superintendent Boarding House

6. Class Teacher to realized dues and report.

Date.....20

Head of Institution

College or school fees	Amount	Other fee	Amount
1. Tution Fee अध्यापन शुल्क		1. Library Fee वाचनालय शुल्क	
2. Re-admission Fee पुनः प्रवेश शुल्क		2. Medical Fee स्वास्थ्य शुल्क	
3. Scholar's Regi Fee विद्यार्थी रजि. शुल्क		3. Refreshment Fee जलपान शुल्क	
4. Find दण्ड		4. Examination Fee परीक्षा शुल्क	
5. Deamess allowance मँहगाई		5. Caution Fee	
6. Development Fee विकास शुल्क		6. magazine Fee पत्रिका शुल्क	
7. Science Fee विज्ञान शुल्क		7. A.V. Fee	
8. Art & Craft Fee कला शुल्क		8. Games Fee क्रीड़ा शुल्क	
9. Pankha Fee पंखा शुल्क		9. Games Fine क्रीड़ा दण्ड	
10. Ink Fee स्याही शुल्क			
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

Grand Total Rs. ....

Grand Total Rupees in words \_\_\_\_\_

Date.....20

Class Teacher

Date.....20

Office Clerk

Struck of the name & issue a copy of Scholar's Register & Transfer Certificate

Date.....20

Head of Institution

Receive .....copies of scholar's & Transfer Certificate Forms

Scholar's Register No.	Admission Application	Transfer Certificate File No.

Can be had from:- BHARAT STORES, 24 Subhash Market, Bareilly